



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 8—जून 14, 2013 (ज्येष्ठ 18, 1935)
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 8—JUNE 14, 2013 (JYAISTHA 18, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	347	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	663	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	843	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 533
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 1381
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 797
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	347	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	663	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	843	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	533
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1381
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	797
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2013

सं. 36-प्रेज़/2013--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस 2013 के अवसर पर निम्नलिखित अफसर को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

महानिरीक्षक खजान चन्द्र पान्डे, तटरक्षक पदक (0072-एम)

2. विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 4(iv) के तहत राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक (विशिष्ट सेवा) प्रदान किया जाता है।

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 37-प्रेज़/2013--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2013 के अवसर पर उपमहानिरीक्षक डोनी मायकल (0258-एल) को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करते हैं :--

प्रशस्ति उल्लेख

उपमहानिरीक्षक डोनी मायकल (0258-एल) ने 06 जुलाई, 1990 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की।

2. 09 सितम्बर, 2012 को, भारतीय तटरक्षक पोत समुद्र प्रहरी 1800 बजे वाणिज्यिक पोत एम्सटर्डम ब्रिज को सहायता देने के लिए तुरंत खाना हुआ। पोत पर, मुंबई बंदरगाह से बाहरी ओर, कार्गो कंटेनर में हुए विस्फोट के कारण आग लग गयी थी। पोत पर 20 कर्मी मौजूद थे।

3. अफसर अल्पतम कर्मियों के साथ पोत को लेकर खाना हुआ। क्षेत्र में पहुंचने के उपरांत, ऑन सीन कमांडर (ओएससी) के रूप में, अफसर ने अपने पोत को, अग्निग्रस्त पोत से 30-40 मीटर की दूरी पर तैनात करके, पोत के बाह्य अग्निशमन (ईएफएफ) तंत्र के द्वारा जल-छिड़काव अभियानों को शुरू कर दिया। वाणिज्यिक पोत पर विस्फोट होने की संभावनाओं के रूप में इसमें अफसर को परिकलित जोखिम था तथा परिणामस्वरूप हानिकारक धुओं के फैलने से भी एक गंभीर जोखिम था। खराब और निम्न दृश्यता में पोत से, इस खतरनाक अवस्थिति में वाणिज्यिक पोत के खतरे से बाहर होने तक, 18 घंटों तक अग्निशमन का कार्य किया गया।

4. अफसर ने, अग्निशमन अभियानों के दौरान स्थिति की मांग को देखते हुए अत्यंत साहस का प्रदर्शन किया। अभियानों के दौरान, मौके पर

पहुंचे विभिन्न सहायक पोतों का, अफसर ने अग्निशमन प्रयासों में आवर्धन करने के लिए इष्टतम उपयोग किया। आग के बुझने के उपरांत, अफसर ने नियुक्त निस्तारकों के द्वारा वाणिज्यिक पोत से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया।

5. उपमहानिरीक्षक डोनी मायकल (0258-एल) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कर्मियों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 38-प्रेज़/2013--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2013 के अवसर पर सहायक कमांडेंट चक्रेश्वर कुमार (0936-सी) को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

सहायक कमांडेंट चक्रेश्वर कुमार (0936-सी) ने 07 जुलाई, 2010 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की।

2. 05 अगस्त, 2012 को, अर्नाला फोर्ट के पास पलट गयी मछुवाही नौका दयासागर से लापता मछुआरों की खोज एवं बचाव करने के लिए 842 स्क्वाड्रन (तटरक्षक) को, दिन की पहली किरण में उड़ान भरने का निदेश दिया गया। सहायक कमांडेंट चक्रेश्वर कुमार, जोकि अभियान हेतु सह-पायलट थे, ने तुरंत ही ईंधन योजना, उड़ान योजना निकासी का पूर्व-सक्रिय रूप से सुनिश्चित करने के द्वारा प्रातः की उड़ान को सुकर बनाने की व्यवस्था की तथा उड़ान भरने को समर्थ बनाने के लिए नौसेना प्राधिकारियों के साथ संपर्क भी किया। अफसर की प्रत्युत्पन्न मति और सटीक सूचनाओं से पायलट को, उत्तरजीवियों की संभावित स्थिति को ज्ञात करने हेतु खोज योजना को तैयार करने में सहायता मिली। संभावित क्षेत्र में लगभग 0710 बजे गहन खोज करने के उपरांत, तिरते मछुवाही बोया और थर्माकोल के टुकड़ों को पकड़े उफानी समुद्र में चार उत्तरजीवी दिखाई दिए, जिन पर लहरें प्रहार कर रही थीं। अफसर ने, अति हिल्लौरमय समुद्र में उत्तरजीवियों के ऊपर विमान को मंडराने पर ध्यान बनाये रखने के लिए प्रथम पायलट के सहायतार्थ कर्मियों के श्रेष्ठ समन्वय को सुकर बनाया। अफसर के पूर्व-सक्रिय संसाधन प्रबंधन से पायलट को, सभी प्रतिमानकों को परिसीमाओं के अंतर्गत रखने तथा वायुयान का अधिकतम समुपयोजन करने में सहायता मिली।

सह-पायलट के रूप में इनकी द्रुत कार्रवाईयों और कठिन परिस्थितियों में समन्वय करना, समुद्र में लापता हुए चार मछुवारों का बचाव करने के लिए दल कार्य के प्रमुख घटक थे।

3. सहायक कमांडेंट चक्रशेखर कुमार (0936-सी) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

4. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 39-प्रेज़/2013--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2013 के अवसर पर बेंगलन ससि, उत्तम सहायक इंजीनियर (ई आर), 07355-एस को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करते हैं :-

प्रशस्ति उल्लेख

बेंगलन ससि, उत्तम सहायक इंजीनियर (ई आर), 07355-एस ने 11 मार्च, 1944 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की।

2. 09 सितम्बर, 2012 को, भारतीय तटरक्षक पोत समुद्र प्रहरी को 1800 बजे, मुंबई बंदरगाह के बाहरी क्षेत्र की ओर वाणिज्यिक पोत एम्साटर्डम ब्रिज, जिसके जोखिमपूर्ण कार्गो कंटेनरों में से एक में विस्फोट होने के कारण आग लग गयी थी, की सहायता करने के लिए रवाना किया गया। पोत पर 20 कर्मी सदस्य थे। आपात स्थिति को देखते हुए, पोत न्यूनतम कर्मियों के साथ रवाना हुआ। अधीनस्थ अधिकारी (एसओ) ने, संपूर्ण आपातकालीन शुरुआती कवायदों को क्रियान्वित किया तथा इस जटिल कार्य में मशीनरियों और उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया। समुद्र की प्रचंड स्थिति का विद्यमान होना तथा अत्यधिक दोलन के परिणामस्वरूप पोत स्टेशनरी की अभिरक्षा करने की आवश्यकता तथा समुद्र-जल की चूषण प्रणाली बारंबार खराब हो रही थी। इससे भारतीय तटरक्षक पोत की अग्निग्रस्त वाणिज्यिक पोत से खतरनाक ढंग से समीपता हो रही थी, क्योंकि भारतीय तटरक्षक पोत की वाणिज्यिक पोत से दूरी मात्र 30 से 40 मीटर तक थी। अधीनस्थ अधिकारी ने प्रारंभिक अवधि के दौरान निगरानी बनाये रखी तथा प्रणोदन प्रणाली की सुरक्षित एवं सतत् उपलब्धता के लिए समुद्र-जल प्रणाली के नियमित शोधन को भी सुनिश्चित किया। वह सतत् रूप से, पोत की मशीनरी खराबी के खतरे, आग और वाणिज्यिक पोत से निकल रहे जहरीले धुएँ के जोखिम में कार्यरत था। इसके बावजूद, इन्होंने ब्रिज के सभी उपकरणों की उपलब्धता बनाये रखने के लिए अकेले ही इंजन कक्ष की व्यवस्था को देखा ताकि कमान दल द्वारा अग्निशमन हेतु तीव्र कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

3. अधीनस्थ अधिकारी की सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने में साधन-संपन्नता की बदौलत अग्निशमन अभियान सफलतापूर्वक निष्पादित किया जा सका।

4. बेंगलन ससि, उत्तम सहायक इंजीनियर (ई आर), 07355-एस ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

5. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 40-प्रेज़/2013--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2013 के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को सहायनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (i) उपमहानिरीक्षक राकेश पाल (0225-एल)
- (ii) कमांडेंट अतुल कुमार (4028-डी)
- (iii) भरत सिंह गोसाई, प्रधान अधिकारी (पी) 00990-जेड

2. सहायनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(ii) के तहत तटरक्षक पदक (सहायनीय सेवा) प्रदान किया जाता है।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 मई 2013

सं. 4(1)-पीयू/2013--लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, जिसका कार्यकाल 30 अप्रैल 2014 को समाप्त होगा, के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु चुने गए हैं :-

सदस्य, लोक सभा

1. श्री हंसराज गं. अहीर
2. श्री प्रवीण सिंह ऐरन
3. श्री संजय भोई
4. श्रीमती श्रुति चौधरी
5. श्री बंस गोपाल चौधरी
6. श्री जगदम्बिका पाल
7. श्री राजाराम पाल
8. श्री अधलराव पाटील शिवाजी
9. श्री राजेन्द्र सिंह राणा
10. श्री नामा नागेश्वर राव
11. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी
12. श्रीमती सुशीला सरोज

13. श्री उदय सिंह
14. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी
15. रिक्त
- सदस्य, राज्य सभा
16. श्री नरेश अग्रवाल
17. श्री अनिल देसाई
18. श्री जनार्दन द्विवेदी
19. श्री नरेश गुजराल
20. श्री मुख्तार अब्बास नकवी
21. श्री तपन कुमार सेन
22. डॉ. जनार्दन वाघमरे

माननीय अध्यक्ष महोदया ने श्री जगदम्बिका पाल को समिति (2013-14) का सभापति नियुक्त किया है।

पी. सी. कौल
निदेशक

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 2013

संकल्प

सं. 33-1/06-सीडीएन--भारत सरकार, संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों से विचारों और अभिरूचियों के विविध सूक्ष्म भेदों के प्रति समेकित दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय लेने की सहभागी प्रक्रिया विकसित करने के लिए, केन्द्रीय संस्कृति सलाहकार बोर्ड गठित करने का संकल्प करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :--

1. संस्कृति मंत्री
20, विंडसर प्लेस,
नई दिल्ली
2. श्री संजीव भार्गव
59, प्रथम तल, जोर बाग,
नई दिल्ली
3. श्री शांतनु सेठ,
309-बी, सेक्टर-15-ए,
नोएडा
4. सुश्री नवीना हैदर
संग्रहाध्यक्ष,
महानगर कला संग्रहालय, न्यूयॉर्क
5. सुश्री संजना कपूर
पृथ्वी थियेटर, 20-जानकी कुटीर,
जुहू चर्च रोड, मुंबई-49

6. प्रो. नयनजोत लहरी
डीन, इतिहास विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007
7. सुश्री महरूख तारापोर
अदराबाद फ्लैट सं. 92,
ह्यूजेज रोड, मुंबई-400007
8. श्री जावेद अखतर
702, सागर सम्राट,
ग्रीन फील्ड्स, जुहू,
मुंबई-400049
9. श्री रोनेश राय
आर-176, ग्रेटर कैलाश-I,
नई दिल्ली-48
10. सुश्री रूपिका चावला
4, जयपुर एस्टेट,
ईस्ट निजामुद्दीन,
नई दिल्ली
11. श्री रतन थियम,
अध्यक्ष, कोरस रिपटरी थिएटर,
उरीपोक, हाओबम दीवान राने,
इम्फाल-759001 (मणिपुर)
12. सचिव, संस्कृति

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य-सचिव

II. केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के विचारार्थ विषय

- (क) भारतीय समाज के विभिन्न स्तरों और विविध क्षेत्रों में सृजनात्मकता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, जिनकी अभी तक उपेक्षा की गई है अथवा वर्तमान संस्थागत तंत्रों के माध्यम से इन्हें कायम नहीं रखा गया है, के संबंध में नीति स्तर पर संस्कृति मंत्रालय को सलाह देना।
- (ख) विविध उपक्षेत्रों में मानव भंडारगृहों की पहचान करना और हस्तांतरण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कार्य नीतियों पर सुझाव देना तथा सरकार के उन कार्यक्रमों की सिफारिश करना, जो विकास की प्रक्रिया के साथ उन दीर्घ परंपराओं की सृजनात्मकता को समेकित करेंगे।
- (ग) मंत्रालय के अधीन प्रत्येक निकायों के कार्यों का समन्वयन करना ताकि साहचर्य नीति के बृहत्तर उपाय तैयार किये जा सकें।
- (घ) संबंधित अधिकरणों द्वारा निराकरण किये जा रहे भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं संबंधी सीमा और तरीकों की जांच करना।
- (ङ) संस्कृति के क्षेत्र में नए आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों के निर्माण हेतु सूचना उपलब्ध कराने में सहायता देना।
- (च) संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय मिशनों के कार्यों को नियंत्रित करना।

III कार्यकाल

केन्द्रीय संस्कृति सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल, जब तक कि सरकार द्वारा अन्यथा निर्धारित न किया जाए, संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष होगा।

IV बैठक

यह बोर्ड तीन महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

V सचिवालय सहायता

सचिवालय सहायता संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी।

VI यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता

- I. किसी राज्य अतिथि गृह अथवा मध्यम श्रेणी के आईटीडीसी होटल अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित पर्यटक होटल/हॉस्टल अथवा भारत अंतरराष्ट्रीय केन्द्र तथा भारतीय पर्यावास केन्द्र जैसी पंजीकृत सोसाइटियों द्वारा प्रदान की गई आवासीय व्यवस्था में एक कक्ष के किराए की प्रतिपूर्ति।
- II. भोजन व्यवस्था के उद्देश्य हेतु सिविल सेवक के उच्चतर ग्रेड के लिए यथा स्वीकार्य महंगाई भत्ते (डीए) की साधारण दरों के 90 प्रतिशत की दर पर महंगाई भत्ता।
- III. उपरोक्त के अलावा, बाहर से आने वाले गैर-सरकारी सदस्य संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा यथा निर्धारित बैठक शुल्क के हकदार होंगे।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की जानकारी हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रेषित की जाए।

अरविंद मंजीत सिंह
संयुक्त सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 2013

सं. क्यू-16012/1/2012-ईएसए(एनएलआई)--जबकि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम, 1957) के अंतर्गत वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर-24, नोएडा को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

और जबकि उक्त सोसायटी के नियमों और विनियमों के नियम III में इसके गठन का प्रावधान है।

अतः, अब उपर्युक्त सोसायटी के नियम III के अनुसरण में और पहले जारी की गयी दिनांक 23.01.2013 एवं 22.04.2013 की अधिसूचना के क्रम में, निम्नलिखित व्यक्तियों को वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा की सामान्य परिषद् में सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया है :

संसद के दो सदस्य (लोक सभा और राज्य सभा, प्रत्येक से एक-एक) :--

1. डॉ. विनय कुमार पांडेय, सदस्य
संसद सदस्य
(लोक सभा)
9, नॉर्थ एवन्यू, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23017201
फैक्स : 011-2379516
ईमेल: vinnubhaiya@gmail.com
2. श्री राम चन्द्र खूंटिया सदस्य
संसद सदस्य
(राज्य सभा)
26, डॉ. आर.पी. रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23782999, 23386999
ईमेल: khuntia@sansad.nic.in

हरप्रीत सिंह
अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2013

No.36-Pres/2013—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2013 to award the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service to the undermentioned officer :—

Inspector General Khajan Chandra Pande, TM (0072-M)

2. The President's Tatrakshak Medal for distinguished Service award is made under Rule-4(iv) of the rules governing grant of the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 37-Pres/2013—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2013 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Deputy Inspector General Donny Michael (0258-L).

CITATION

Deputy Inspector General Donny Michael (0258-L) joined the Indian Coast Guard on 06 July 1990.

2. On 09 September 2012, Indian Coast Guard Ship Samudra Prahari was rushed at 1800 hours to render assistance to the merchant vessel Amsterdam Bridge which reported fire onboard due to explosion of one of her dangerous cargo containers just outside the Mumbai harbour. The vessel had 20 crew onboard.

3. The officer sailed out the ship with a skeletal crew. After arriving in the area, as the On Scene Commander (OSC), he positioned his ship at a distance of 30-40 meters from the vessel on fire and started water spraying operations with the ship's External Fire Fighting (EFF) system. This was a calculated risk on the part of the officer as chances of explosion on the merchant vessel and consequent spreading of toxic fumes was a serious threat. This dangerous positioning for fire fighting (FF) in rough and poor visibility conditions was carried out for 18 hours, till the merchant vessel was out of danger.

4. The officer exuded extreme courage in the demanding situation during the FF operations. During the operations, the officer optimally utilized different support vessels which arrived on the scene to augment fire fighting efforts. Post fire extinguishment, the officer ensured effective deflooding arrangement by the merchant vessel through appointed salvors.

5. Deputy Inspector General Donny Michael (0258-L) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance

admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 38-Pres/2013—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2013 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Assistant Commandant Chakshender Kumar (0936-C).

CITATION

Assistant Commandant Chakshender Kumar (0936-C) joined the Indian Coast Guard on 07 July 2010.

2. The 842 Squadron (Coast Guard) was ordered to launch search and rescue (SAR) at first light on 05 August 2012 for the missing fishermen from capsized fishing boat Dayasagar off Arnala Fort. Assistant Commandant Chakshender Kumar, who was the Co-Pilot for the mission, promptly set about to facilitate an early launch by proactively ensuring fuel planning, flight plan clearance and liaison with the Naval authorities to enable take-off. The officer's presence of mind and accurate inputs helped the pilot sketch out the search plan to establish the probable position of the survivors. Upon conducting a close search in the probable area around 0710 hours, four survivors in strong seas were sighted clinging onto floating fishing buoys and thermocol pieces pummelled by the waves. He facilitated perfect crew co-ordination aiding the first pilot to concentrate on hovering over the survivors in the violent raging sea. The officer's proactive resource management helped the pilot to keep all parameters within limits and exploit the aircraft to the maximum. His prompt actions as a co-pilot and co-ordination in trying circumstances were a key factors in the team work to rescue the four missing fishermen who had been lost at sea.

3. Assistant Commandant Chakshender Kumar (0936-C) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

4. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 39-Pres/2013—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2013 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Bangalan Sasi, Uttam Sahayak Engineer (Engine Room), 07355-S.

CITATION

Bangalan Sasi, Uttam Sahayak Engineer (Engine Room), 07355-S joined the Indian Coast Guard on 11 March 1994.

2. On 09 September 2012, Indian Coast Guard Ship (ICGS) Samudra Prahari was rushed at 1800 hours to render assistance to the merchant vessel Amsterdam Bridge, which reported fire on board due to explosion of one of her dangerous cargo containers just outside the Mumbai harbour. The vessel had 20 crew members onboard. Responding to the emergency, the ship sailed with skeletal crew. The subordinate officer (SO), carried out the entire emergency starting drills and ensured availability of machineries and equipment in this complicated task. The prevailing rough sea condition and the requirement of keeping the ship stationery resulted in heavy rolling and frequent loss of suction of the sea water system. This rendered the ship in dangerous proximity to the burning merchant vessel as the ship was only at a distance of 30 to 40 meters from the vessel. The SO carried out the watch alone during the initial period and also ensured regular purging of sea water system for safe and continuous availability of propulsion system. He was constantly exposed to the danger of the ship's machinery failure, risk of fire and poisonous fumes emanating from the merchant vessel. Despite that, he single handedly managed the Engine Room to provide all equipment to the bridge so as to enable prompt action for fighting fire by the command team.

3. The SO's resourcefulness in providing all the assistance resulted in the successful completion of the fire fighting operation.

4. Bangalan Sasi, Uttam Sahayak Engineer (Engine Room), 07355-S has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

5. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 40-Pres/2013—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2013 to award the Tatrakshak Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers :—

- (i) Deputy Inspector General Rakesh Pal (0225-L)
- (ii) Commandant Atul Kumar (4028-D)
- (iii) Bharat Singh Gusain, Pradhan Adhikari (Power), 00990-Z

2. The Tatrakshak Medal (Meritorious Service) award is made under 11(ii) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal for Meritorious Service.

SURESH YADAV
OSD to the President

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 27th May 2013

No. 4(1)-PU/2013—The following Members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve on the Committee on Public Undertakings for the term ending on 30 April, 2014 :—

Lok Sabha

1. Shri Hansraj Gangaram Ahir
2. Shri Praveen Singh Aron
3. Shri Sanjay Bhoi
4. Smt. Shruti Choudhary
5. Shri Bansa Gopal Chowdhury
6. Shri Jagdambika Pal
7. Shri Raja Ram Pal
8. Shri Adhalrao Shivaji Patil
9. Shri Rajendrasinh Rana
10. Shri Nama Nageswara Rao
11. Shri Magunta Sreenivasulu Reddy
12. Smt. Sushila Saroj
13. Shri Uday Singh
14. Shri Bhisma Shankar *alias* Kushal Tiwari
15. Vacant

Rajya Sabha

16. Shri Naresh Agrawal
17. Shri Anil Desai
18. Shri Janardan Dwivedi
19. Shri Naresh Gujral
20. Shri Mukhtar Abbas Naqvi
21. Shri Tapan Kumar Sen
22. Dr. Janardhan Waghmare

The Speaker, Lok Sabha has been pleased to appoint Shri Jagdambika Pal as Chairman of the Committee (2013-2014).

P. C. KOUL
Dir.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, The 6th May 2013

RESOLUTION

No. 33-1/06-CDN—To evolve a participative process of decision-making by taking an integrated view of the various

shades of ideas and interests from different domains of culture, the Government of India has resolved to constitute the Central Advisory Board on Culture (CABC) consisting of the following members:—

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Minister of Culture
20, Windsor Place,
New Delhi | : Chairperson |
| 2. Sh. Sanjeev Bhargava
59, Ist. Floor, Jorbagh
New Delhi. | : Member |
| 3. Sh. Shantun Seth
309-B, Sector-15-A, NOIDA | : Member |
| 4. Ms. Navina Haider
Curator,
Metropolitan Museum of Art,
New York | : Member |
| 5. Ms. Sanjna Kapoor
Prithvi Theatre, 20-Janki Kutir
Juhu Church Road, Mumbai - 49 | : Member |
| 6. Prof. Nayanjot Lahiri
Dean, Department of History,
Delhi University, Delhi - 110007 | : Member |
| 7. Ms. Mahrukh Tarapor
ADRABAD, Flat No. 92,
Huges Road, Mumbai - 400 007 | : Member |
| 8. Sh. Javed Akhtar
702, Sagar Samrat,
Green Fields, Juhu,
Mumbai - 400 049 | : Member |
| 9. Sh. Ronesh Ray
R-176, Greater Kailash -1,
New Delhi - 48 | : Member |
| 10. Ms. Rupika Chawla
4, Jaipur Estate,
East Nizamuddin
New Delhi | : Member |
| 11. Sh. Ratan Thiyam
Chairman, Chorus Repertory Theatre,
Uripok Haobam Dewan Rane,
Imphal - 795 001 (Manipur) | : Member |
| 12. Secretary, Culture | : Member-Secretary |

II. TERMS OF REFERENCE OF THE CENTRAL ADVISORY BOARD

- (a) To advise the Ministry of Culture at the policy level to evolve programmes which would focus attention on the creativity at different levels of Indian society, and

in different regions, which hitherto has been either neglected or not sustained through the existing institutional mechanisms.

- (b) To identify the human repositories in the diverse sub-field and advise on the strategies to ensure a continuity of transmission and to recommend to the Government programmes that will integrate the creativity of these long traditions with the processes of development.
- (c) To coordinate the functions of each of the bodies under the Ministry so as to bring about a greater measure of cohesive policy.
- (d) To examine the extent and manner in which various facets of Indian Culture are being addressed by concerned agencies.
- (e) To help provide inputs for the formulation of new, need - based programmes in the field of culture.
- (f) To guide the work of the National Missions set up by the Ministry of Culture.

III. TENURE

The tenure of Central Advisory Board on Culture will be three years with effect from the date of issue of resolution, unless otherwise decided by the Government.

IV. MEETING

The Board will meet at least once in three months.

V. SECRETARIAL ASSISTANCE

Secretarial Assistance shall be provided by the Ministry of Culture.

VI. TRAVELLING ALLOWANCES / DAILY ALLOWANCE

- I. Reimbursement of rent in any State Guest House or for single room in medium range ITDC hotels or State Government run Tourist hotels / hostels or residential accommodation provided by registered societies like India International Centre and India Habitat Centre.
- II. D.A. at the rate of 90% of ordinary rates of D.A. as admissible to the highest grade of civil servant for boarding purpose.
- III. In addition to the above the outstation, non - official members will be entitled to sitting fee as decided by the Administrative Ministry/ Department concerned.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Also ordered that a copy of the Resolution be forwarded to all the Ministries/Departments of Government of India, all State Governments/Union Territories Administration.

ARVIND MANJIT SINGH
Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 22nd May 2013

No.Q-16012/1/2012-ESA(NLI)—Whereas The V. V. Giri National Labour Institute, Sector-24, Noida has been registered as a Society under Societies Registration Act, 1860 (Punjab Amendment Act, 1957).

And Whereas Rule III of the Rules & Regulations of the said Society provides for its constitution.

Now, therefore in pursuance of Rule III aforesaid Society and in continuation of the earlier Notification dated 23.01.2013 & 22.04.2013, the following persons are nominated as members of the General Council of V. V. Giri National Labour Institute, Noida :

Two Members of Parliament (one each from Lok Sabha & Rajya Sabha) :—

- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | Dr. Vinay Kumar Pandey
Member of Parliament
(Lok Sabha)
9, North Avenue, New Delhi-110001
Tele : 011-23017201
Fax : 011-2379516
email : vinnubhaiya@gmail.com | Member |
| 2. | Shri Ram Chandra Khuntia
Member of Parliament
(Rajya Sabha)
26, Dr. R. P. Road, New Delhi-110001
Tele : 23782999, 23386999
email : khuntia@sansad.nic.in | Member |

HARPREET SINGH
Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013
www.dop.nic.in